

## फीड बैक रिपोर्ट – 2019-20 (छात्र)


शासकीय मुकुटधर पाण्डे महाविद्यालय में सत्र 2019-20 हेतु महाविद्यालय में होने वाले विभिन्न क्रिया कलाओं, शिक्षण, मुलभुत सुविधाएँ तथा अन्य होने वाले गतिविधियों के बिषय पर महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं से पुनर्निवेशन (Feedback) फार्म भरवाया गया। महाविद्यालय में सत्र 2019-20 में कुल 1500 प्रवेशित छात्र-छात्राएँ थे। महाविद्यालय के 1000 छात्र-छात्राओं का Google Form के द्वारा फीडबैक फॉर्म प्राप्त हुए।

### 1. महाविद्यालय का परिसर हरा-भरा और पर्यावरण के अनुकूल हैं। (The College campus is green and eco-friendly).

महाविद्यालय परिसर में पर्यावरण कि स्थिति :- आज के आधुनिकीकरण के युग में सम्पूर्ण विश्व पर्यावरण प्रदुषण से ग्रसित हैं। पिछले कुछ वर्षों में प्रदुषण को रोकथाम हेतु लोगो में जागरूकता आयी हैं। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने का प्रयत्न में सम्पूर्ण विश्व में चेतना जगी है। ऐसे में भारत देश में भी जागरूकता आयी और अब तो देश व प्रदेश में जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ "हरिहर छत्तीसगढ़" का नारा देकर विद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र- छात्राओं के माध्यम से प्रदेश में जागरूकता देखने को मिला। शासकीय मुकुट धर पांडे महाविद्यालय कटघोरा के अधिकारी-कर्मचारी, प्राध्यापक तथा छात्र-छात्राएँ मिलकर परिसर को हरा-भरा करने के लिए पौधे लगाने तथा उनको संरक्षित करने का अभियान पिछले कई वर्षों से चल रहा है। महाविद्यालय परिसर में पर्यावरण कि स्थिति का छात्र-छात्राओं का अभिमत लिया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

महाविद्यालय का परिसर हरा-भरा और पर्यावरण के अनुकूल हैं। (The College campus is green and eco-friendly)	Strongly Agree	Agree	Neutral	Disagree	Strongly Disagree
	228	630	130	7	5
%	22.8	63.0	13.0	0.7	0.5


उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि महाविद्यालय का परिसर पर्यावरण व हरियाली कि स्थिति में 63% छात्रों ने अपनी सहमती प्रकट की हैं। जिससे स्पष्ट है कि महाविद्यालय का वातावरण पर्यावरण के अनुकूल तथा हरा भरा है। पूर्ण सहमत के लिए 22.8% छात्र-छात्राओं ने अपना अभिमत दिया। सामान्य स्थिति के लिए 13% छात्र-छात्राओं का अभिमत रहा। 0.7% छात्र-छात्राओं ने असहमत प्रकट किये हैं जबकि पूर्ण असहमत का प्रतिशत बहुत ही कम 0.5% है।



### 2. महाविद्यालय परिसर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हैं। (Clean and filtered drinking water is available in the college campus.)

जल ही जीवन है। मानव जीवन तथा सभी सजीव जीवों के लिए जल प्रकृति द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण वरदान है। हमारे महाविद्यालय के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं तथा प्राध्यापकों-कर्मचारियों के लिए महाविद्यालय परिसर में शुद्ध पेय जल की व्यवस्था की गयी है। महाविद्यालय परिसर में वाटर-कूलर फिल्टर 02 तथा पानी कि टंकी जिसमें बोर पम्प कि सहायता से पानी की व्यवस्था की जाती है। इस सम्बन्ध में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं से पानी कि शुद्धता और उपलब्धता हेतु अभिमत लिया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

महाविद्यालय परिसर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हैं। (Clean and filtered drinking water is available in the college campus.)	Strongly Agree	Agree	Neutral	Disagree	Strongly Disagree
	252	643	78	24	3
%	25.2	64.3	7.8	2.4	0.3



उपर्युक्त तालिका तथा प्रदर्शित ग्राफ से स्पष्ट है की महाविद्यालय परिसर में शुद्ध पेय जल कि व्यवस्था तथा उपलब्धता पर पूर्ण सहमत 25.2%, सहमत 64.3% हैं। 7.8% छात्र- छात्राओं का अभिमत सामान्य रहा। जबकि महाविद्यालय के 2.4% छात्र-छात्राओं ने अपनी असहमति प्रकट कि हैं तथा पूर्णतः असहमत के लिए 0.3% छात्र-छात्राओं का अभिमत रहा, जो बहुत ही कम है। अतः स्पष्ट है महाविद्यालय शुद्ध पेयजल की व्यवस्था से सहमत के प्रति छात्र-छात्राओं का अभिमत अधिक है।

### 3. कक्षाओं को सदैव साफ एवं उचित व्यवस्था में रखा जाता है। (The condition of classroom is clean and always well maintained.)

कक्षाओं को सदैव साफ और अच्छी व्यवस्था में रखा जाता है:- वर्तमान

परिदृश्य में चारो तरफ साफ-सफाई तथा पर्यावरण की शुद्धता जन-जागरूकता हो रही है। अतः जहा पर देश का भविष्य तैयार हो रहे हो उनको स्वच्छ, न कावल सरकार व शासन-प्रशासन कि नहीं, बल्की स्वयं के संस्था कि साफ-सफाई कि जिम्मेदारी है, कि अपने संस्था की साफ-सफाई का ध्यान रखे। इसी सिलसिले में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं से महाविद्यालय के अध्ययन कक्ष की साफ-सफाई के संबंध में उनका अभिमत लिया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

कक्षाओं को सदैव साफ एवं उचित व्यवस्था में रखा जाता है (The condition of classroom is clean and always well)	Very Satisfied	Satisfied	Neutral	Unsatisfied	Very Unsatisfied

maintained.)	253	545	113	74	15
%	25.3%	54.5%	11.3%	7.4%	1.5%

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन कक्ष की साफ-सफाई सम्बन्धी व्यवस्था अच्छा है। लगभग 45.5% छात्र-छात्राओं ने साफ-सफाई संतुष्टि के प्रति अपना मत दिये हैं तथा पूर्ण रूप संतुष्ट 25.3% छात्र-छात्राओं का मत है। तटस्थ के प्रति 11.3% छात्र-छात्राओं का मत है। असंतुष्ट तथा पूर्ण रूप से असंतुष्ट क्रमशः 7.4% तथा 1.5% है। अतः स्पष्ट है कि छात्र तथा छात्राएं अध्ययन कक्ष की साफ-सफाई व्यवस्था से सहमत हैं।

**4. शिक्षक व्याख्यान लेने के लिए नियमित और समय पर आते हैं (The teachers are punctual and on time to take the classes.)**



प्रत्येक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षा की उच्च गुणवत्ता यह अति आवश्यक है कि शिक्षक अपना कक्षा समय से प्रतिदिन नियमित लें। शिक्षक अपने कर्तव्य से छात्र-छात्राओं को शिक्षा देने के प्रति इमानदार रहें तो पुरे देश के शिक्षा व्यवस्था में सुधार संभव है। महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी रहने के बाद भी सभी शिक्षक अपने समय से शिक्षण व्याख्यान के कार्य को पूर्ण करने का भरसक प्रयास करते हैं। इसी सन्दर्भ में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं का नियमित शिक्षक अध्यापन के बारे में अभिमत लिया। जिसका विवरण निम्नवत है-

शिक्षक व्याख्यान लेने के लिए नियमित और समय पर आते हैं (The teachers are punctual and on time to take the classes.)	Very Satisfied	Satisfied	Neutral	Unsatisfied	Very Unsatisfied
	301	539	104	43	13
%	30.1%	53.9%	10.4%	4.3%	1.3%




उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि शिक्षकों के समय पर नियमित व्याख्यान को महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के द्वारा अभिमत लिया गया। 53.9% लोग समय पर शिक्षकों के अध्यापन से संतुष्ट हैं। जबकि 30.1% छात्र-छात्राएं पूर्ण सहमत हैं। तटस्थ छात्र-छात्राओं की संख्या 10.4% है। शिक्षकों के नियमित अध्यापन से 4.3% लोग असहमत हैं तथा 1.3% पूर्ण रूप से असहमत हैं।

**5. शिक्षक कक्षा के लिए अच्छे से तैयार होकर आते हैं (The teachers come well prepared for the class.)**

प्रायः देखने में आता है कि कुछ स्थानों पर शिक्षक अपने विषय की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से तैयारी नहीं करके आते हैं जिससे कक्षा में अध्यापन उपरांत छात्र संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। हमारे महाविद्यालय में अध्यापक अपने कक्षा के लिए अच्छे से तैयार होकर आते हैं, विषय पा छात्रों का अभिमत लिया गया। जिसका विवरण निम्नवत है।

शिक्षक कक्षा के लिए अच्छे से तैयार होकर आते हैं (The teachers come well prepared for the class.)	Strongly Agree	Agree	Neutral	Disagree	Strongly Disagree
	288	610	70	21	11
%	28.8%	61%	7%	2.1%	1.1%




उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि हमारे महाविद्यालय के शिक्षक अपनी पूरी तैयारी के साथ कक्षा लेते हैं, इसपर 61% छात्रों ने अपन अभीमत दिया है जबकि पूर्ण अभीमत वाले छात्रों का प्रतिशत 28.8% हैं। तटस्थ छात्रों की संख्या 7% हैं। 2.1% छात्र तथा छात्राएं असहमत हैं। जबकि 1.1% लोग पूर्ण रूप से असहमत हैं।

6. शिक्षक कक्षा में छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। (The teachers encourage the students to participate and discuss in the classroom.)

प्रत्येक शिक्षक का उत्तरदायित्व है की अपने विषय को छात्र-छात्राओं के बीच बहुत ही सरल व उचित ढंग से प्रस्तुत करे, साथ ही साथ छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करके आपस में चर्चा कर विषय को और भी

सरल और रोचक बनाकर छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करें। महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं का "शिक्षक कक्षा में छात्र भागीदारी और चर्चा को प्रोत्साहित करते हैं" विषय पर अभीमत लिया गया। जिसका विवरण निम्नवत है-

शिक्षक कक्षा में छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। (The teachers encourage the students to participate and discuss in the classroom.)	Strongly Agree	Agree	Neutral	Disagree	Strongly Disagree
		271	646	60	18
%	27.1%	64.6%	6%	1.8%	0.5%




उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है की हमारे महाविद्यालय के शिक्षक कक्षा के समस्त छात्र-छात्राओं को विषय सम्बन्धी चर्चा करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं जिससे छात्र व्याख्यान अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। छात्र-छात्राओं से प्राप्त अभीमत के अनुसार 27.1% छात्र तथा छात्राएं पूर्ण रूप से सहमत है जबकि 64.6% छात्र इस बात से सहमत हैं। तटस्थ छात्र छात्राओं की संख्या 6% है। असहमत छात्र-छात्राओं की संख्या 1.8% है, जबकि पूर्ण असहमत 0.5% छात्र-छात्राओं की संख्या है।

7. शिक्षकों का रवैया छात्रों के प्रति सहायक और दोस्ताना रहता है। अपने (The nature of teachers towards the students is friendly and helpful)

महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं का सम्बन्ध शिक्षकों के साथ एक अभिभावक की तरह होता है। शिक्षक हमेशा किसी न किसी प्रकार से छात्र तथा छात्राओं को ज्ञान

देते रहते हैं। जिससे उनका बौद्धिक क्षमता का विकास होने के साथ साथ, नये चीजों के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है तथा शिक्षक अपने अनुभवनुसार छात्र- छात्राओं हमेशा मित्रवत ज्ञान और सहायता करते रहते हैं। इस सम्बन्ध में छात्र तथा छात्राओं का अभीमत जानने के लिए एक ऑनलाइन प्रश्नावली भरवाया गया। जिसका विवरण निम्नवत है-

शिक्षकों का रवैया छात्रों के प्रति सहायक और दोस्ताना रहता है। (The nature of teachers towards the students is friendly and helpful)	Strongly Agree	Agree	Neutral	Disagree	Strongly Disagree
		271	635	78	14
%	27.1%	63.5%	7.8%	1.4%	0.2%




उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है की हमारे महाविद्यालय के शिक्षक का रवैया सहायक व मित्रवत हैं। छात्र-छात्राओं से प्राप्त अभीमत के अनुसार 27.1% छात्र तथा छात्राएं पूर्ण रूप से सहमत है जबकि 63.5% छात्र इस बात से सहमत हैं। तटस्थ छात्र छात्राओं की संख्या 7.8% है। असहमत छात्र-छात्राओं की संख्या 1.4% है, जबकि पूर्ण असहमत 0.2% छात्र-छात्राओं की संख्या है।

8. छात्रों का उपस्थिति रिकॉर्ड शिक्षकों द्वारा बनाया जाता है। (Attendance record is properly maintained by the teacher.)

महाविद्यालय में छात्र तथा छात्राओं का उपस्थिति रिकॉर्ड बनाया जाता है। जो छात्र तथा छात्राओं को नियमित रहने के लिए प्रोत्साहित करती

है। हमारे महाविद्यालय भी में छात्र तथा छात्राओं का उपस्थिति रिकॉर्ड शिक्षक द्वारा बनाया जाता है। इसके लिए महाविद्यालय के छात्र तथा छात्राओं का अभीमत लिया गया। जो निम्नवत

छात्रों का उपस्थिति रिकार्ड शिक्षकों द्वारा बनाया जाता है। (Attendance record is properly maintained by the teacher.)	Very Satisfied	Satisfied	Neutral	Unsatisfied	Very Unsatisfied
	286	594	89	17	14
%	28.6%	59.4%	8.9%	1.7%	1.4%




उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है की हमारे महाविद्यालय के शिक्षक छात्र-छात्राओं के उपस्थिति रिकार्ड को बनाते स्वयं बनाते हैं। प्राप्त अभिमत के अनुसार 28.6% छात्र तथा छात्राएं पूर्ण रूप से सहमत है जबकि 59.4% छात्र इस बात से सहमत हैं। तटस्थ छात्र छात्राओं की संख्या 8.9% है। असहमत छात्र-छात्राओं की संख्या 1.7% है, जबकि पूर्ण असहमत 1.4% छात्र-छात्राओं की संख्या है।

**9. मूल्यांकन प्रक्रिया सही और निष्पक्ष होता है। (The evaluation process is fair and unbiased.)**

महाविद्यालय में छात्र- छात्राओं के अध्ययन के साथ-साथ उनका मूल्यांकन भी किया जाता है जिससे उनके बौद्धिक क्षमता का पता चलता

है तथा अगली कक्षाओं में उनका पदोन्नति किया जाता है। यदि किसी कारणवश मूल्यांकन प्रक्रिया सही और निष्पक्ष नहीं हो पा रहा है तो छात्र- छात्राओं के बौद्धिक क्षमता पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारे महाविद्यालय में शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया के सम्बन्ध में छात्र- छात्राओं का अभिमत लिया गया। जिसका विवरण निम्नवत है-

मूल्यांकन प्रक्रिया सही और निष्पक्ष होता है। (The evaluation process is fair and unbiased.)	Strongly Agree	Agree	Neutral	Disagree	Strongly Disagree
	258	648	73	13	8
%	25.8%	64.8%	7.3%	1.3%	0.8%




महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने सही और निष्पक्ष मूल्यांकन के ऊपर अपना अभिमत दिया। 28.6% छात्र तथा छात्राएं पूर्ण रूप से सहमत है कि महाविद्यालय में मूल्यांकन सही और निष्पक्ष होता तथ 59.4% छात्र तथा छात्राएं सहमत हैं। तटस्थ छात्र तथा छात्राएं की प्रतिशत संख्या 8.9% है। असहमत छात्र तथा छात्राओं के प्रतिशत संख्या 1.7% है जबकि 1.4% छात्र तथा छात्राएं पूर्ण रूप से असहमत हैं।

**10. अतिथि और जनभागीदारी अध्यापकों द्वारा शिक्षण समझने योग्य होता है। (The teaching learning process of the guest and janbhagidari teacher is understandable.)**

शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए तथा शिक्षकों के कमी के कारण कुछ महाविद्यालय में अतिथि विद्वान तथा जनभागीदारी अध्यापक शासन से प्राप्त नियमानुसार कुछ समय के लिए एक निश्चित मानदेय पर रखे जाते हैं। ये अध्यापक

पठन-पाठन हेतु अनुभावीय, विषय-निपुण तथा उच्च अकादमिक योग्यता रखने वाले होते हैं। महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं से अतिथि और जनभागीदारी अध्यापकों द्वारा शिक्षण समझने योग्य होता है, के सम्बन्ध में अभिमत लिया गया। जिसका विवरण निम्नवत है -

अतिथि और जनभागीदारी अध्यापकों द्वारा शिक्षण समझने योग्य होता है। The teaching learning process of the guest and Janbhagidari teacher is understandable.	Very Satisfied	Satisfied	Neutral	Unsatisfied	Very Unsatisfied
	255	613	107	20	5
%	25.5%	61.3%	10.7%	2%	0.5%




उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है की हमारे महाविद्यालय में अतिथि और जनभागीदारी अध्यापकों द्वारा शिक्षण समझने योग्य होता है, छात्र-छात्राओं से प्राप्त अभिमत के अनुसार 25.5% छात्र तथा छात्राएं पूर्ण रूप से सहमत है जबकि 61.3% छात्र इस बात से सहमत हैं। तटस्थ छात्र छात्राओं की संख्या 10.7% है। असहमत छात्र-छात्राओं की संख्या 2% है, जबकि पूर्ण असहमत 0.5% छात्र-छात्राओं की संख्या है।

**11. ज्ञान वृद्धि हेतु ग्रंथालय में पुस्तक व अन्य पाठ्य सामग्री उपलब्ध हैं। (Books and reading material available in the library for knowledge enhancement.)**

ग्रंथालय वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोतों तथा

सेवाओं आदि का संग्रह पुस्तक के रूप में रहता है। ग्रंथालय छात्र-छात्राओं को ज्ञान का संग्रह व अर्जन करने में सहायक होता है, जिससे छात्र-छात्राओं के बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। ग्रंथालय में मुख्य रूप से पाठ्य पुस्तक, सन्दर्भ पुस्तक, पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र आदि मंगाए जाते हैं। छात्र ग्रंथालय में अपने विषय के पाठ्यक्रम के अलावा भी अन्य जानकारी प्राप्त करते हैं जो उनके अकादमिक योग्यता के विकास में बहुत ही सहायक होता है। ज्ञान वृद्धि हेतु ग्रंथालय में पुस्तक व अन्य पाठ्य सामग्री उपलब्ध हैं। इस सम्बन्ध में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं का अभिमत लिया गया जिसका विवरण निम्नवत है -

ज्ञान वृद्धि हेतु ग्रंथालय में पुस्तक व अन्य पाठ्य सामग्री उपलब्ध हैं। (Books and reading material available in the library for knowledge enhancement.)	Strongly Agree	Agree	Neutral	Disagree	Strongly Disagree
		282	609	75	27
%	28.2%	60.9%	7.5%	2.7%	0.7%



ज्ञान वृद्धि हेतु ग्रंथालय में पुस्तक व अन्य पाठ्य सामग्री उपलब्ध हैं, छात्र- छात्राओं द्वारा प्राप्त अभिमत में 28.2% छात्र तथा छात्राएं ग्रंथालय से प्राप्त पाठ्य सामग्री से पूर्ण रूप से सहमत है, जबकि सहमत छात्र-छात्राओं की संख्या प्रतिशत 60.9% है। तटस्थ छात्र- छात्राओं का प्रतिशत संख्या 7.5% है। असहमत छात्र- छात्राओं का प्रतिशत संख्या 2.7% है जबकि पूर्ण रूप से असहमत छात्र- छात्राओं का प्रतिशत संख्या 0.7% है।

**12. ग्रंथालय स्टाफ का व्यवहार सहयोगी एवं सहायक होता है। (The library staffs are cooperative and helpful in nature.)**

ग्रंथालय में ग्रंथालय कर्मचारियों की छात्र- छात्राओं को अध्ययन सामग्री प्रदान एवं उचित मार्गदर्शन करने में सहयोगात्मक भूमिका रहती है। ग्रंथालय स्टाफ का व्यवहार सहयोगी एवं सहायक होता है, विषय पर महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं का अभिमत लिया गया जिसका

विवरण निम्नवत है-

ग्रंथालय स्टाफ का व्यवहार सहयोगी एवं सहायक होता है। (The library staffs are cooperative and helpful in nature.)	Strongly Agree	Agree	Neutral	Disagree	Strongly Disagree
		261	656	59	18
%	26.1%	65.6%	5.9%	1.8%	0.6%



उपरोक्त तालिका तथा ग्राफ के अनुसार हमारे महाविद्यालय के ग्रंथालय स्टाफ का व्यवहार सहयोगी एवं होता है, छात्र-छात्राओं से प्राप्त अभिमत के अनुसार 26.1% छात्र तथा छात्राएं पूर्ण रूप से सहमत है जबकि 65.6% छात्र इस बात से सहमत हैं। तटस्थ छात्र छात्राओं की संख्या 5.9% है। असहमत छात्र-छात्राओं की संख्या 1.8% है, जबकि पूर्ण असहमत 0.6% छात्र-छात्राओं की संख्या है।

**13. ग्रंथालय में अध्ययन कक्ष की सुविधा उपलब्ध हैं। (Reading room facilities are available in the library.)**

छात्र-छात्राओं के अध्ययन हेतु ग्रंथालय में एक अध्ययन कक्ष होता है जहां पर छात्र बैठकर अपनी पुस्तक या ग्रंथालय से प्राप्त पुस्तक, सन्दर्भ पुस्तक, पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र का अध्ययन

करता है, साथ ही साथ किसी विषय पर चर्चा भी करते हैं। ग्रंथालय में अध्ययन कक्ष की सुविधा उपलब्ध है विषय पर छात्र-छात्राओं का अभिमत लिया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

ग्रंथालय में अध्ययन कक्ष की सुविधा उपलब्ध है। (Reading room facilities are available in the library.)	Very Satisfied	Satisfied	Neutral	Unsatisfied	Very Unsatisfied
	299	593	87	15	6
%	29.9%	59.3%	8.7%	1.5%	0.6%



उपर्युक्त तालिका तथा ग्राफ के अनुसार हमारे महाविद्यालय के ग्रंथालय में एक अध्ययन कक्ष तथा छात्र-छात्राओं को बैठने की व्यवस्था की गयी है, छात्र-छात्राओं से प्राप्त अभिमत के अनुसार 29.9% छात्र तथा छात्राएं पूर्ण रूप से सहमत हैं जबकि 59.3% छात्र इस बात से सहमत हैं। तटस्थ छात्र छात्राओं की संख्या 8.7% है। असहमत छात्र-छात्राओं की संख्या 1.5% है, जबकि पूर्ण असहमत 0.6% छात्र-छात्राओं की संख्या है।

**14. प्रयोगशाला में उपकरण अच्छी स्थिति में है। (Lab equipment is in good working condition.)**

विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए अध्ययन के साथ-साथ प्रायोगिक कार्य भी

अतिआवश्यक हैं। कुछ महाविद्यालयों में कला वर्ग के कुछ बिषयों में भी प्रायोगिक कार्य रहता है। जैसे- भौगोलिक विज्ञान, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान इत्यादि। प्रायोगिक कार्य हेतु प्रयोगशाला में उपकरण के माध्यम से कराया जाता है। कहीं कहीं पर प्रायोगिक उपकरण अच्छी स्थिति में नहीं रहते हैं जिससे छात्र को उचित प्रायोगिक ज्ञान नहीं हो पता है। महाविद्यालय में प्रयोगशाला में उपकरण अच्छी स्थिति में है, बिषय पर छात्र-छात्राओं का अभिमत लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है-

प्रयोगशाला में उपकरण अच्छी स्थिति में है। (Lab equipment is in good working condition.)	Strongly Agree	Agree	Neutral	Disagree	Strongly Disagree
	194	633	125	39	9
%	19.4%	63.3%	12.5%	3.9%	0.9%



उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है की प्रयोगशाला में उपकरण अच्छी स्थिति में है, बिषय पर छात्र-छात्राओं के प्राप्त अभिमत से। 19.4% प्रायोगिक उपकरण अच्छी स्थिति में है से पूर्ण सहमत हैं। जबकि 63.3% छात्र-छात्राएं सहमत है। तटस्थ छात्र-छात्राओं की प्रतिशत संख्या 12.5% है। प्रयोगशाला में उपकरण के स्थिति से 3.9% लोग असहमत हैं तथा 0.9% पूर्ण रूप से असहमत है।

**15. छात्राओं के लिए अलग शौचालय एवं कामन रूम की व्यवस्था महाविद्यालय में है। (Separate common room and toilet for girls is available.)**

आज के परिवेश में सभी महाविद्यालयों मुलभुत सुविधाएं होनी चाहिए। महाविद्यालय

में छात्र-छात्राओं को स्वच्छ पिने का पानी, वाशरूम, वाचनालय रूम तथा कैंटीन आदि की सुविधा प्रदान करया जाना चाहिए है जिससे अध्ययन के साथ-साथ छात्र-छात्राओं को किसी प्रकार की समस्या न हो सके। लेकिन जिस महाविद्यालय में सहशिक्षा (छात्र एवं छात्राएं) हो या महिला महाविद्यालय हो वह की मुलभुत सुविधाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। हमारे महाविद्यालय में छात्र एवं छात्राएं दोनों अध्ययनरत हैं। इसलिए महाविद्यालय के छात्र एवं छात्राओं से छात्राओं के लिए अलग शौचालय एवं कामन रूम की व्यवस्था महाविद्यालय में है। बिषय पर ओका अभिमत लिया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है-

छात्राओं के लिए अलग शौचालय एवं कामन रूम की व्यवस्था महाविद्यालय में है। Separate common room and toilet for girls is available.	Very Satisfied	Satisfied	Neutral	Unsatisfied	Very Unsatisfied
	251	606	99	35	9
%	25.1%	60.6%	9.9%	3.5%	0.9%



उपर्युक्त तालिका तथा ग्राफ से स्पष्ट है की महाविद्यालय में छात्राओं के लिए अलग शौचालय एवं कामन रूम की व्यवस्था महाविद्यालय में है, छात्र-छात्राओं से प्राप्त अभिमत के अनुसार 25.1% छात्र तथा छात्राएं पूर्ण रूप से सहमत है जबकि 60.6% छात्र इस बात से सहमत हैं। तटस्थ छात्र छात्राओं की संख्या 9.9% है। असहमत छात्र-छात्राओं की संख्या 3.5% है, जबकि पूर्ण असहमत 0.9% छात्र-छात्राओं की संख्या है।

**16. शौचालय और वाशरूम की प्रत्येक दिन साफ-सफाई तथा उचित व्यवस्था की जाती है।(Toilets/ washroom are cleaned everyday and properly maintained.)**

महाविद्यालय परिसर में साफ-सफाई के साथ-साथ शौचालय तथा वाशरूम का प्रत्येक दिन साफ-सफाई किया चाहिए जिससे महाविद्यालय का परिवेश स्वच्छ बना रहे। हमारे महाविद्यालय में "शौचालय और वाशरूम की प्रत्येक दिन साफ-सफाई तथा उचित व्यवस्था की जाती है।" बिषय पर छात्र-छात्राओं का अभिमत लिया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

शौचालय और वाशरूम की प्रत्येक दिन साफ-सफाई तथा उचित व्यवस्था की जाती है। (Toilets/ washroom are cleaned everyday and properly maintained.)	Very Satisfied	Satisfied	Neutral	Not Satisfied	Very Satisfied
	181	552	127	91	49
%	18.1%	55.2%	12.7%	9.1%	4.9%



उपर्युक्त तालिका तथा ग्राफ से स्पष्ट है कि महाविद्यालय के छात्र तथा छात्राओं ने शौचालय तथा वाशरूम की साफ-सफाई से 18.1% छात्र पूर्णतः संतुष्ट है जबकि संतुष्ट छात्र-छात्राओं की प्रतिशत संख्या 55.2% है। तटस्थ छात्र - छात्राओं की संख्या 12.7% है तथा 9.1% छात्र शौचालय तथा वाशरूम के साफ-सफाई से संतुष्ट नहीं हैं एवं 4.1% छात्र पूर्ण रूप से असंतुष्ट हैं।

**17. कार्यालय कर्मचारी सहयोगी एवं सहायक है। (The office staff is cooperative and helpful in nature.)**

महाविद्यालय में कार्यालय कर्मचारी भी एक मुख्य स्तम्भ जिनका मुख्य कार्य प्राचार्य के आदेशानुसार शिक्षण कार्य के आकड़ों का संधारण करना तथा छात्र-छात्राओं के नामांकन से लेकर परीक्षा परिणाम तक के कार्य को करना होता

है। बहुत से महाविद्यालयों के कार्यालय कर्मचारी छात्र-छात्राओं के कार्य के सहायक प्रवृत्ति के होते हैं। हमारे महाविद्यालय में "कार्यालय कर्मचारी सहयोगी एवं सहायक है।" बिषय पर छात्र-छात्राओं का अभिमत लिया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है-

कार्यालय कर्मचारी सहयोगी एवं सहायक है। (The office staff is cooperative and helpful in nature.)	Strongly Agree	Agree	Neutral	Disagree	Strongly Disagree
	219	684	80	12	5
%	21.9%	68.4%	8%	1.2%	0.5%



उपर्युक्त तालिका तथा प्रदर्शित ग्राफ से स्पष्ट है कि महाविद्यालय के कार्यालय कर्मचारी सहयोगी एवं सहायक है हेतु पूर्ण सहमत छात्र-छात्राओं का प्रतिशत संख्या 21.9%, तथा सहमत 68.4% हैं। 8% छात्र- छात्राओं का अभिमत सामान्य रहा। जबकि महाविद्यालय के 1.2% छात्र-छात्राओं ने अपनी असहमति प्रकट कि है तथा पूर्णतः असहमत के लिए 0.5% छात्र-छात्राओं का अभिमत रहा, जो बहुत ही कम है। अतः स्पष्ट है महाविद्यालय के कार्यालय कर्मचारी सहयोगी एवं सहायक से सहमत के प्रति छात्र-छात्राओं का अभिमत अधिक है।

**18. सभी छात्रों को खेल, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा दुसरे कार्यक्रमों के लिए अवसर मिलाता है। (Opportunity and chance to every student in sports, NSS and other programs is fair.)**

महाविद्यालय में अध्ययन के साथ-साथ छात्र-छात्राओं को खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा अन्य दुसरे कार्यक्रमों हेतु भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर अवसर दिया जाता है। जिससे छात्र-छात्राएं अध्ययन के साथ साथ बहुमुखी विकास हो सके। महाविद्यालय में "सभी छात्रों को खेल, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा दुसरे कार्यक्रमों के लिए अवसर मिलाता है।" के बिषय में छात्र छात्राओं का अभिमत लिया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

सभी छात्रों को खेल, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा दुसरे कार्यक्रमों के लिए अवसर मिलाता है। (Opportunity and chance to every student in sports, NSS and other programs is fair.)	Strongly Agree	Agree	Neutral	Disagree	Strongly Disagree
	285	629	63	17	6
%	28.5%	62.9%	6.3%	1.7%	0.6%




उपर्युक्त ग्राफ तथा तालिका से स्पष्ट है की सभी छात्रों को खेल, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा दुसरे कार्यक्रमों के लिए अवसर मिलता है। छात्र-छात्राओं द्वारा दिए गए अभिमत के अनुसार पूर्ण रूप से सहमत छात्रों का प्रतिशत संख्या 28.5% है तथा सहमत छात्र-छात्राओं का प्रतिशत संख्या 62.9% है। 6.3% छात्र- छात्राओं का अभिमत सामान्य रहा। 1.7% छात्र-छात्राएं इस बात असहमत है की उनको खेल, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा दुसरे कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिलता है तथा 0.6% छात्र-छात्राएं इस बात से पूर्णतः असहमत हैं।

**19. छात्रों के शिकायत का निवारण समय पर किया जाता है। (Student's grievances are redressed in time.)**

प्रत्येक महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं के शिकायत का निवारण महाविद्यालय में गठित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के द्वारा किया जाता है। कभी कभी छात्र-छात्राओं शिकायत का निवारण समय

पर नहीं हो पाता है जिससे छात्र-छात्राओं को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। हमारे महाविद्यालय में "छात्रों के शिकायत का निवारण समय पर किया जाता है।" बिषय पर छात्रों का अभिमत लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है-

छात्रों के शिकायत का निवारण समय पर किया जाता है। (Student's grievances are redressed in time.)	Strongly Agree	Agree	Neutral	Disagree	Strongly Disagree
	222	641	96	34	7
%	22.2%	64.1%	9.6%	3.4%	0.7%




छात्रों के शिकायत का निवारण समय पर किया जाता है। छात्रों से प्राप्त अभिमत में से 22.2% छात्र पूर्ण सहमत है की उनका शिकायत का निवारण समय पर किया जाता है तथा सहमत छात्रों की संख्या 64.1% है। सामान्य अभिमत छात्र-छात्रों की संख्या 9.6% है। 3.4% छात्र इस बात असहमत है की उनका शिकायत निवारण समय से नहीं किया जाता है। 0.7% छात्र पूर्ण रूप से असंतुष्ट हैं।

**20. व्यवसाय परामर्श संतोषजनक है। (The proper guidance and counselling is satisfactory.)**

महाविद्यालय में अध्ययन के साथ-साथ छात्र-छात्राओं का व्यवसाय सम्बन्धी परामर्श शिक्षकों द्वारा या व्यवसाय, परामर्श एवं नियोजन केंद्र द्वारा छात्र छात्राओं को समय-समय पर दिया जाता है जिससे छात्र को अध्ययन उपरांत व्यवसाय चुनने या सरकारी सेवा में जाने के लिए तैयरी हेतु उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। महाविद्यालय में दिए जाने वाले "व्यवसाय परामर्श संतोषजनक है।" बिषय पर छात्रों का अभिमत लिया गया। जिसका विवरण निम्नवत है-

व्यवसाय परामर्श संतोषजनक है। (The proper guidance and counselling is satisfactory.)	Very Satisfied	Satisfied	Neutral	Unsatisfied	Very Unsatisfied
	199	631	142	24	4
%	19.9%	63.1%	14.2%	2.4%	0.4%



प्राप्त अभिमत का तालिका एवं ग्राफ से स्पष्ट है की महाविद्यालय के व्यवसाय परामर्श से 19.9% छात्र संख्या पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं तथा 63.1% छात्र संतुष्ट हैं। सामान्य छात्र-छात्राओं की संख्या 14.2% है। 2.4% छात्र संख्या व्यवसाय परामर्श से संतुष्ट नहीं है और पूर्ण रूप से असंतुष्ट छात्र-छात्राओं की संख्या 0.4% है।

**21. क्या आप अपने प्रोग्राम पाठ्यक्रम से सन्तुष्ट है। (Are you satisfied your own syllabus?)**

छात्र-छात्राओं के अध्ययन हेतु वार्षिक/ सत्रांश पाठ्यक्रम निर्धारित रहता है इसी पाठ्यक्रम के आधार पर उनका वार्षिक/ सत्रांश मूल्यांकन किया जाता है। वर्तमान परिवेश में छात्र

बिषय पाठ्यक्रम से कितना संतुष्ट है इसके लिए छात्रों का अभिमत लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्या आप अपने प्रोग्राम पाठ्यक्रम से सन्तुष्ट है। (Are you satisfied your own syllabus?)	Strongly Agree	Agree	Neutral	Disagree	Strongly Disagree
	131	389	35	5	
%	13.1%	38.1%	3.5%	0.5%	0.0%





महाविद्यालय के 13.1% छात्र वर्तमान विषय पाठ्यक्रम से पूर्ण रूप से सहमत हैं तथा सहमत छात्र-छात्राओं की संख्या 38.1% है। सामान्य अभिमत छात्रों की संख्या 3.5% है तथा असहमत छात्र-छात्राओं का प्रतिशत संख्या 0.5% है।

**क्या आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसी अन्य विषय वस्तु (Content) को अपने पाठ्यक्रम (Syllabus) में शामिल करना चाहेंगे-(सुझाव):-** उपर्युक्त शीर्षक पर छात्र-छात्राओं से सुझाव माँगा गया था। 210 छात्रों ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसी अन्य विषय वस्तु (Content) को अपने पाठ्यक्रम (Syllabus) में शामिल करना हेतु सहमत हुए जबकि 316 छात्रों अपनी सहमती नहीं में दिया। छात्रों से प्राप्त सुझाव निम्नलिखित हैं-

- महाविद्यालय में कम्प्यूटर कोर्स संचालित हेतु सुझाव।
- व्यवसायीकरण से सम्बंधित पाठ्यक्रम।
- पांचवी अनुसूची की पूर्ण जानकारी शामिल करना चाहिए।
- जनसंख्या निर्धारण निति।
- लुप्त हो रहे वन्य जीवों & पेड़-पौधों के प्रति सजगता
- वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हेल्थ को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं।
- समय प्रबंध, सामान्यज्ञान, Online एजुकेशन, उदासी (Depression) आदि पर व्याख्यान।
- महाविद्यालय में पीजी (प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र) की पाठ्यक्रम को भी शामिल किया जाना चाहिये
- हमारे महाविद्यालय में एक कामन मेडिसिन स्टाफ रूम होना चाहिए ताकि किसी कारण वश किसी घायल स्टूडेंट्स को समय पर प्राथमिक उपचार किया जा सके (रेड-क्रास)
- शिक्षा और स्वच्छता के प्रति विशेष रूप से जागरूक करना था उसके प्रति संपूर्ण महाविद्यालय को सहयोग प्रदान करना।
- हमारे महाविद्यालय में शिक्षकों की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, एवं प्रयोगशाला में हमें अच्छी सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। कॉलेज में स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, तथा इसके प्रति सब को जागरूक करना चाहिए-किसी विशेष दिन इसके ऊपर हमें बैठकर विचार करना चाहिए- सुलभ शौचालय को स्वच्छ रखना चाहिए जिससे किसी को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।
- हमारे कॉलेज में छात्राओं के लिए कॉमन रूम की व्यवस्था होनी चाहिए तथा महाविद्यालय में हॉस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए हमारे कॉलेज में बाउंड्री वॉल की व्यवस्था होनी चाहिए हमारे कॉलेज में गार्ड की व्यवस्था होने चाहिए जो आने जाने वाले व्यक्तियों का एंट्री करें।
- प्रिंसिपल महोदय से मैं यही आशा करती हूँ कि महाविद्यालय में विज्ञान समूह के प्राध्यापकों की रिक्त शीट जल्द से जल्द भरने की कृपा करे।

**क्या आप रोजगार मूलक विषय को अपने पाठ्यक्रम (Syllabus) में शामिल करना चाहेंगे-(सुझाव):-**

उपर्युक्त शीर्षक हेतु 124 छात्रों ने अपनी सहमति दी की रोजगार मूलक विषय को अपने पाठ्यक्रम (Syllabus) में शामिल होना चाहिए तथा 190 छात्रों की सहमती नहीं है।

-----//-----